

ek/; fed Lrj ds fo | kfFk] k] ds fo | ky; h i fjo"k dk  
mudh v/; ; u dh vknrk] ij i Hkkko dk v/; ; u

ekks/k funf"dk

ekks/kkFkh]

MkD chuk dekj h  
, e-, -] , e-, M] , e-fQy-] i h&, p-Mh-  
, i kf] , V i kQd j] f"k{kd f"k{kk foHkkx  
/kez I ekt egkfo | ky; ] vytix<+

food | kj Lor  
, e-, -] f"k{kk"kkL=h

vkt ds ckyd dks n"k dk Hkkoh I q kX; ukxfjd cukus dh ftEenkjh i fjo"j] fo | ky; , oa  
I ekt dh gA fdUrq i kfjokfd i fjo"k dh vi {kk fo | ky; h i fjo"k es v/; ; u dh vknrk] I oksa  
dh i fji Dork rFkk ufrd eW; k] dks fodfl r , oa i fjskt करने की अद्भुत सामर्थ्य होती है।  
Hkkjrh; I ekt vkt eW; k] dh =kl nh I s xqtj jgk gA ; g I Oe.k dky gftl es vko"; d gs  
कि छात्र अनौपचारिक एवं आनुषंगिक रूप से जो सीख रहे हैं, उसका सामाजिक, राष्ट्रीय एवं दैनिक  
thou es egRo gkuk pkfg, A

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त शोध समर्या निम्नवत् है :—

^ek/; fed Lrj ds fo | kfFk] k] ds fo | ky; h i fjo"k dk mudh v/; ; u dh vknrk]  
ij i Hkkko dk v/; ; uA\*\*  
'kks/k v/; ; u dh fof/k

iLrp 'kks/k v/; ; u tuin vytix<+ ds dUnh; ek/; fed f'k{kk i f"kn] ubz fnYyh I s  
I Ec) b. VjehfM, V dkWystk] es v/; ; ujr d{kk&9 ds mu Nk=k] ij fd; k x; k g] tks o"kl 2009  
dh okf"kd ijh{k] es d{kk&9 ds i ek.k&i = grq] fefyr gq FKA vFkk~iLrp 'kks/k dk I exi  
tuin vytix<+ ds mu fo | kfFk] k] I s fufel fd; k x; k g] tks I hOchO, I ObD }jkj ekU; rk iLrp  
ofj "B ek/; fed fo | ky; k] es o"kl 2009 ds vUrxi d{kk&9 es v/; ; ujr FKA

iLrr 'kks/kdk; Z eukd kekft d iNfr dk gkus l s l kFk&l kFk l o[k. kkRed iNfr dk Hkh gA vr% 'kks/kdrkZ us l k{kRdkj vud ph ds }kj funf' kJ l puknkrkvka l s l puk; l dfyr dh gFk eukoKkfudk ijh{k.kk ds vk/kkj ij Hkh fu"d"kl ikr fd; s gA 'kks/kdk; Z l Ei Uu djus grq oKkfud fof/k ds l Hkh egRoi wkl pj .kk dk vuijz kx djus dk i z kl fd; k x; k gA f' k{k eukoKkfudk us vud U/kku ds {k= e o.kukRed l o[k. k dk egRo l cl s vf/kd ekuk gA bl l EcU/k e th0t0 eksy ds vud kj] ^{k{k}d vud U/kku ds vUrXr o.kukRed vud U/kku ftruk egRoi wkl g\$ mruk egRo fd l h n j s i dkj dh vud U/kku fof/k dk ugha g\$ ; g , d ogn oxhjdj.k g\$ ft l e fo fof' k"V rduhfd , o a i fof/k; k l ekfgr jgrh g\$ tks fd l h ?kVuk ds i jh{k. k ds fy; s vko'; d gA\*\*8

i frn'kl , o a mi dj .kk dk p; u

'kks/k dk; Z l Ei kfnr djus e l exz dh l eLr bdkb; k l s l Ei dz djuk i k; % dfBu gkrk g\$ rFk k bl l s l e; o /ku dk vi 0; ; Hkh gkrk gA vr% l e; , o a /ku ds n#i ; kx dh l EHkkouk l s cpus ds fy; s l exz dh bdkb; k e l s i frn'kl dk fudkyuk 'kks/k dk; Z dh vko'; drk gkrh gA l exz dk i wkl i frfuf/kRo djus okyk i frn'kl vPNk ekuk tkrk gA vPNs , o a mi ; Dr i frn'kl e l exz dh i R; d bdkbZ dks pws tks dh i wkl i kFfedrk gkrh gA

I exz l s U; kn'kl i kr dh djus dh if 0; k ds vUrXr vyhx<+ tuin ds l h0ch0, l obD fnYh l s l Ec) l Hkh b. VjehfM, V dkystk dh l ph l a Dr funkd dk; kly; l s i kr dh A tuin e s fo | ky; k dh l a; k dkQh vf/kd gkus ds dkj.k ykVjh fof/k }kj dly N% fo | ky; k dk p; u fd; k x; k ftudh l ph l kj.kh e i Lrr dh x; h gA

p; fur fo | ky; k dk fooj . k

Øekd	fo   ky; dk uke	Nk=	Nk=k, j	; kx
1-	I sV fQnfyl Ldy] vyhx<+	1800	2200	4000
2-	fotMe i fcyd Ldy] vyhx<+	2000	1800	3800
3-	gfjVst i fyd Ldy] vyhx<+	1800	1400	3200
4-	bukge bULVhV~W] vyhx<+	1300	1200	2500
5-	कृष्णा इण्टरनेशनल क्यु लडी] vyhx<+	1100	900	2000
6-	fcfy, .V i fyd Ldy] vyhx<+	900	900	1800
	dy ; kx	8900	8400	17300

eukoKkfud ijh{k.kk ea ; fi vuod ijh{k.kk dk iz kx fd; k tkrk jgk g ftue fuEufyf[kr ijh{k.k e ; gA

1- mi yfc/k ijh{k.k

2- af) ijh{k.k

3- vfhk; kx; rk ijh{k.k

4- vfhkofRr eki uh

5- 0; fDrRo rkfydk vkfnA

fdlUrq 'kk;k I eL; k ds pjks dks nf"Vxr j [kr gq bu eukoKkfud ijh{k.kk dh mi ; kfxrk l fnX/k gk ds dkj . k fuEufyf[kr egRoi wkl i ksf.kd ijh{k.kk dks mi ; kx ea yk; k x; k g %&

1- d0, l0 feJ }jk k fufel Ldy , uok; jues V blloVh %S.E.I.%

2- , e0, u0 i kyl u , oa , l0 'kekz }jk k fufel LVMh gfoV blloVh %P.S.S.H.I.%

mi dj . kks dk i fjp; , oa i t kkl u

iLrr 'kksk , d euksk{kd v/; ; u gA , s s 'kksk es eukoKkfud ijh{k.k dks i z Dr djuk , d vko'; drk gkrh g\$ ftl l s 0; fDrxr fikkurk dk eki u djuk , oa ml dh 0; k[; k djuk I EHko gkrk gA tOMCY; o cL V us oKkfud ijh{k.k dks i fikkf"kr djrs gq dgk g\$ "The Psychological test is an instrumental design to describe and measure a sample of certain aspects of human behaviour."<sup>12</sup>

iLrr 'kksk es fo kfFkz k ds fo | ky; h i fjo sk dk mudh v/; ; u dh vknrk l oxxRed ifj iDork , oa ufrd elV; k i j iHko Kkr fd; k x; k gA bl l nHkz es i z Dr i kekf.kd ijh{k.k dks fooj.k fuEuor~g\$%

- 1- fo | ky; h i fjo sk ds eki u grq i zekihNr eukoKkfud ijh{k.k & School Environment Inventory (S.E.I.), MK d0, l 0 feJ }kj k fuferA
- 2- v/; ; u dh vknrk ds eki u grq , e0, u0 i ky l u rFkk , l 0'kef }kj k fufer Study Habit Inventory (PS-SH1).

प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ तथा उद्देश"; vx fyf[kr g\$%

'kksk mnns ;

iLrr 'kksk grq fuEuoyf[kr mnns ; fu: fi r fd; s x; s g\$%  
mnns ; 1 %

fo | ky; h i fjo sk dk fo kfFkz k dh v/; ; u dh vknrk i j iHko dk v/; ; u djukA

mnns ; 1-1 %

fo | ky; h i fjošk dk fo | kfFkz ka dh i <us dh vknrkz ij i Hkko dk v/; ; u djukA

mnns ; 1-2 %

fo | ky; h i fjošk dk fo | kfFkz ka dh vf/kxe dh ; fDr; ka ij i Hkko dk v/; ; u djukA

mnns ; 1-3 %

fo | kfFkz ka dks fo | ky; h i fjošk dk mudh Lefr ij i Hkko dk v/; ; u djukA

mnns ; 1-4 %

fo | ky; h i fjošk dk fo | kfFkz ka ds l e; c) v/; ; u ij i Hkko dk v/; ; u djukA

mnns ; 1-5 %

fo | ky; h i fjošk fo | kfFkz ka ds v/; ; u dh Hkkfir d voLFkkvka ij i Hkko dk v/; ; u djukA

mnns ; 1-6 %

fo | kfFkz ka dks fo | ky; h i fjošk dk mudh ij h{kk , oa eW; kdu ij i Hkko dk v/; ; u

djukA

'kks/k i fjdYi uk; ;

'kks/k i fjdYi uk; ; fdI h 'kks/k efn'kk funkd dk dk; Z djrh gA ; g fdI h 'kks/k I eL; k  
dk VJVsVo mRrj gkA iLrr 'kks/k e 'kks/k i fjdYi uk dk ij h{k.k , oa vuqz kx fd; k tk jgk  
gA

' kks/k i fj dYi uk 1 %

fo | ky; h i fjošk dk fo | kfFkz ka dh v/; ; u dh vknrkz i j dkbz i tkko ugha i Mfk gA

' kks/k i fj dYi uk 1-1 %

fo | ky; h i fjošk dk fo | kfFkz ka dh i <us dh vknrkz i j dkbz i tkko ugha i Mfk gA

' kks/k i fj dYi uk 1-2 %

fo | kfFkz ka ds fo | ky; h i fjošk dk muds vf/kxe dh ; fDr; ka i j dkbz i tkko ugha i Mfk gA

' kks/k i fj dYi uk 1-3 %

fo | kfFkz ka ds fo | ky; h i fjošk dk muds Lefr Lrj i j dkbz i tkko ugha i Mfk gA

' kks/k i fj dYi uk 1-4 %

fo | kfFkz ka ds fo | ky; h i fjošk dk mudh l e; c) rk ; Dr v/; ; u dh vknrkz i j dkbz i tkko ugha i Mfk gA

' kks/k i fj dYi uk 1-5 %

fo | kfFkz ka ds fo | ky; h i fjošk dk mudh v/; ; u dh tkko voLekk i j dkbz i tkko ugha i Mfk gA

' kks/k i fj dYi uk 1-6 %

fo | kfFkz ka ds fo | ky; h i fjošk dk muds Lo; a dh i jh{k v{k e; kdu i j dkbz i tkko ugha i Mfk gA

## भारेध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ

iLrr ' ksk dk; LeI dfyr I pukvkz ds fo"लेषण हेतु निम्नलिखित सांख्यिकीय प्रविधियों

दक्षिण क्षेत्र एवं यूरोपीय दक्षिण; विभिन्न देशों के ग्रन्थालय; दक्षिण क्षेत्र एवं यूरोपीय दक्षिण;

### **%इमेल मीडियम**

फल हैं इनमें दो दशलक्षण देखने के लिए आवश्यक हैं। दक्षिण क्षेत्र के लिए यह असुनिक विवरण हैं:

क्षेत्रीय संरचना; विभिन्न देशों के ग्रन्थालय; विभिन्न देशों के ग्रन्थालय;

$$M = a + \frac{\Sigma fd}{\Sigma f} \times h$$

तथा  $M = d \times f / \Sigma f$ ;

$$a = \text{संक्षिप्त देशों के ग्रन्थालय}$$

$$d = \text{संक्षिप्त देशों के ग्रन्थालय}$$

$$\Sigma f = \text{दक्षिण क्षेत्र के देशों की संख्या}$$

$$\Sigma fd = \text{दक्षिण क्षेत्र के देशों की संख्या}$$

$$h = \text{दक्षिण क्षेत्र के देशों की संख्या}$$

दक्षिण क्षेत्र के देशों की संख्या अपने अधिकारी देशों की संख्या के बराबर है। दक्षिण क्षेत्र के देशों की संख्या अपने अधिकारी देशों की संख्या के बराबर है।

### **%इमेल मीडियम**

फल हैं इनमें दो दशलक्षण देखने के लिए आवश्यक हैं। दक्षिण क्षेत्र के लिए यह असुनिक विवरण हैं:

$$e/; kd = \frac{(n+1)}{2} \quad \text{अब दक्षिण क्षेत्र के देशों की संख्या है}$$

$$\frac{\left(\frac{n}{2}\right) \text{ok} \text{ in} + \left(\frac{n}{2}+1\right) \text{ok} \text{ in}}{2} \quad \text{t gk n , d l e l a[; k g\$}$$

oxh̄Nr v kdmks ds fy; s &

$$e/; kd \quad \frac{3}{4} \quad 1 + \frac{\left(\frac{n}{2} - CF\right)}{f} \quad x \quad h$$

$$t gk \quad n \quad = \quad d y \quad l a[; k$$

$$l \quad = \quad e/; kd \quad oxl dh \quad fuEu \quad l \quad hek$$

$$f \quad = \quad e/; kd \quad oxl dh \quad ckjEckj rk$$

$$CF \quad = \quad e/; kd \quad oxl l s fi \quad Nys oxl dh \quad l \quad p; h \quad ckjEckj rk$$

$$rFkk \quad h \quad = \quad oxkUrj \quad g\$$$

### %iii% ekud fopyu %Standard Deviation%

fn; s gq s i klrkdks ds e/; eku l s i klrkdks ds fopyuk ds oxk ds e/; eku dk oxl ekud fopyu dgykrk gA

$$S.D. \quad = \quad \left\{ \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \frac{(\sum fd)^2}{N}} \right\} \quad x \quad h$$

$$t gk \quad S.D. \quad = \quad ekud fopyu$$

$$h \quad = \quad oxkUrj$$

$$\Sigma fd^2 = \text{fopyuka ds oxl , oavkofRr; ka ds xqkuQy dk ; kx}$$

$$\Sigma fd = \text{vkofRr; ka , oafopyuka ds xqkuQy dk ; kx}$$

$$rFkk N = ikrkdkd dh | a; k gA$$

#### iv) Ig I EcU/k Correlation%

nks ; k nks I s vf/kd pj jkf"k; k ?Vukvka ; k oLrqk ds i kjLi fjd I EcU/k dks I g&l EcU/k dgrs gA fxyQmZ ds vud kj] ^ g&l EcU/k xqkdkd og vdsh I a; k gS tks ; g idV djrh gS fd nks oLrqj fdI h I hek rd , d nI js ds I kfk I EcU/kr gS rFkk , d ds ifjorlu ds dkj .k nI js ds ifjorlu dks fdI I hek rd iHkkfor djrh gA\*\*

I g&l EcU/k dh x.kuk foek nks fof/k; ka }kjk dh tkrh gS &

(a) LFku Øefof/k %

$$P = 1 - \frac{6 \sum d^2}{N(N^2-1)}$$

(b) okLrfod e/; eku fof/k %

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

v) t dh x.kuk

ifrn"kl dh I a; k 30 I s de gkus ij vFkk~I eng gkus ij cr ds LFku ij t dh x.kuk

dh tkrh gftl dsfy; sfueu l i z kx fd; k x; k g &

$$t = \frac{M_1 + M_2}{\sqrt{\frac{\Sigma d_1^2 + \Sigma d_2^2}{N_1 + N_2 + \dots} \left( \frac{N_1 + N_2}{N_1 N_2} \right)}}$$

; gk M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub> rFkk d<sub>1</sub>, d<sub>2</sub> i obr~vFkz e i z kx fd; s x; s gA

इस प्रकार शोध प्रबन्ध में सांख्यिकीय विधियों का उचित प्रयोग किया गया है। यथा स्थान ckjEckj rk oO] cgkkt] i kbz pkVz vlfn dk Hkh i z kx fd; k x; k gA

## निश्कश

mnns ; , oai fjdYi ukvka dks vkjEHk e i Lrfd; k x; k FkkA ml h Øe e 'kks/k fu"d"kk dh i kflr vkxs i Lrfd; dh tk jgh gS%

mnns ; 1 %

fo | ky; h i fjosk dk fo | kfFkz ka dh v/; ; u dh vknrk a ij i Hkko dk v/; ; u djukA 'kks/k i fjdYi uk 1 %

fo | ky; h i fjosk dk fo | kfFkz ka dh v/; ; u dh vknrk a ij i Hkko ugha i Mrk gA fu"d"kz % 'kks/k ds i Fke mnns ; Is I Ecfl/kr vkjMka dks I kj.kh I a[; k 4-13 e i 0; ofLkr fd; k x; k g ftl e i t= 3.929 , oai p= 0.0001 i kflr gvk rFkk i fjdYi uk [kf.Mr gq hA vr% fu"d"kz LFkkfir gkrk gS fd fo | ky; h i fjosk dk fo | kfFkz ka dh v/; ; u dh vknrk a ij i Hkko , oai egRoikz i Hkko i Mrk gA ; fn fo | ky; dk i fjosk v/; ; u ds vudy i fLfkr; k mRi uu djus e i {ke gS rks ogk ds fo | kfkh vf/kd vPNk dj I drs gA

mnns ; 1-1 %

fo | ky; h i fjošk dk fo | kfFkz ka dh i <us dh vknrk i j i Hko dk v/; ; u djukA  
' kks/k i fj dYi uk 1-1 %

fo | ky; h i fjošk dk fo | kfFkz ka dh i <us dh vknrk i j dkbz i Hko ugha i Mrk gA  
fu"d"kl % fo | ky; h i fjošk dk fo | kfFkz ka ds i <us dh vknr i j Hkh l kFkz i Hko ns[kk  
x; kA ftu fo | ky; ka es f'k{kdk, oa i zkkukpk; l ds }kj k f'k{kkuply i fjošk r§ kj fd; s x; s g§ ogki  
Nk= vi us l e; dk vf/kdre mi ; kx i <us es djrs g§ A fjDr dkykak es Nk= , oa Nk=k, i  
i f'rdky; es tkdj vi us fo"k; l s l Ecfl/kr i f'rds i llr dj i <rs g§ rFkk dN Nk= nsud  
l ekpkj i =ka dks i <rs g§ rks Nk=k, j i k; % i f=dkvk dks i <rh gA

mnns ; 1-2 %

fo | ky; h i fjošk dk fo | kfFkz ka dh vf/kxe dh ; fDr; ka i j i Hko dk v/; ; u djukA  
' kks/k i fj dYi uk 1-2 %

fo | kfFkz ka ds fo | ky; h i fjošk dk muds vf/kxe dh ; fDr; ka i j dkbz i Hko ugha i Mrk gA  
fu"d"kl % bl i fj dYi uk ds [kf.Mr gksus ds i 'pkr ; g fu"d"kl i fri kfnr fd; k tkrk g§  
fd fo | ky; h i fjošk fo | kfFkz ka dh vf/kxe dh ; fDr; ka dks i Hkkfor djrk gA fo | ky; ftruh  
vf/kd i dkj dh l kexh fo | kfFkz ka dks mi yC/k djks g§ Nk= ml l kexh dk vf/kd i z kx dj  
i krs gA Nk=k bfj dk ds vuq kj] ^, fn gekjs fo | ky; es d§ ; ks vkg cksks t§ s ok | ; U= u gkrs  
rks egs l xhr es dHkh #fp i Sk ugha gkrhA\*\*

mnns ; 1-3 %

fo | kFFkZ kA ds fo | ky; h i fjo;k dk mudh Lefr ij iHko dk v/; ; u djukA

'kks/k i fj dYi uk 1-3 %

fo | kFFkZ kA ds fo | ky; h i fjo;k dk muds Lefr Lrj ij dkBz iHko ugha i Mfk gA

fu"d"kl % Lefr Lrj ij Hkh fo | ky; h i fjo;k dk l kFkd iHko ik; k x; kA tc d{kk es v/; ki d foHku i dkj ds i tu iNrs gS vkJ i tu ckj&ckj iNs tkrsgS rks Nk=kA dk Lefr Lrj Hkh c<rk gS A ; fn v/; ki d Nk=kA dks doy i <krk jgS chp eS vf/kxe dk eV; kdu u djs rks fo | kFFkZ kA dh Lefr dh udkjkRed : i l s iHkkfor gks l drh gA

mnns ; 1-4 %

fo | ky; h i fjo;k dk fo | kFFkZ kA ds l e; c) v/; ; u ij iHko dk v/; ; u djukA

'kks/k i fj dYi uk 1-4 %

fo | kFFkZ kA ds fo | ky; h i fjo;k dk mudh l e; c) rk ; Dr v/; ; u dh vknrkA ij dkBz iHko ugha i Mfk gA

fu"d"kl % l e; c) rk dks l Hkh fo | kFFkZ kA us egRoi wkl ekukA fo | ky; h i fjo;k eS l e; c) rk dk l kFkd iHko i Mfk gS A tc fo | kFFkZ l e; ds vUrxt dk; l djuk l h[ks gS rks mudh dk; l {kerk Hkh c<rh gS rFkk thou eS fof'k"V vuqkku vkrk gS bl fy; s gj Nk= dks l e; c) rk dk /; ku j [kuk pkfg, rFkk vi uk iR; d dk; l l e; l hek ds vUnj gh l ekir djuk pkfg, A

mnns ; 1-5 %

fo | ky; h i fjošk dk fo | kFFkz ka ds v/; u dh Hkkfrd voLFkkvka ij iHko dk v/; u djukA

'kks/k i fj dYi uk 1-5 %

fo | kFFkz ka ds fo | ky; h i fjošk dk mudh v/; u dh Hkkfrd voLFkk ij dkboz iHko ugha iMrk gA

fu"d"kl % mi ; Dr i fj dYi uk [kf.Mr gks pdh gA fu"d"kl% dgk tk l drk gS fd fo | ky; h i fjošk fo | kFFkz ka dh v/; u dh Hkkfrd voLFkkvka dks iHkkfor djrk gA

mnns ; 1-6 %

fo | kFFkz ka ds fo | ky; h i fjošk dk mudh ijh{kk , oa eW; kdu ij iHko dk v/; u djukA

'kks/k i fj dYi uk % 1-6 %

fo | kFFkz ka ds fo | ky; h i fjošk dk muds Lo; adh ijh{kk , oa eW; kdu ij dkboz iHko ugha iMrk gA

fu"d"kl % ; g i fj dYi uk [kf.Mr gks ds mi jkUr fu"d"kl ; g gS fd fo | ky; h i fjošk dk fo | kFFkz ka dh ijh{kk , oa eW; kdu ij iHko iMrk gS fn ijh{kk l pk: : i ls djk; h tkrh gS rFkk eW; kdu Hkh mfpr rjhds ls gkrk gS rks Nk= vPNk i fr'kr vFkok 10 CGPA ikus dh bPNk djrs gq vuq i izkl Hkh djrs gS ft l ls mudk yfc/k Lrj c<rk gA

mn̄ns ; 1-7 %

fo | ky; h i fjošk dk fo | kfFkz ka ds LokLF; ij i M̄us okys i t̄kko dk v/; u djukA  
'kks/k i fj dYi uk 1-7 %

fo | ky; h i fjošk dk fo | kfFkz ka ds LokLF; ij dkbl i kfkd i t̄kko ugha gkrk gA  
fu"d"kl % 'kks/kFkh us i k; k fd fo | ky; h i fjošk fo | kfFkz ka ds LokLF; dks kh i kfkd : i l s  
i t̄kkfor djrk gS A ; fn fo | ky; dk bUÝkLVDPj Bhd ugha gS [ky dk eñku i ; klr ugha gS  
dejka e i dkk'k , oñ gok dh mfpr Ø; oLFkk ugha gS rks fo | kfkh ds LokLF; ij udkjkRed i t̄kko  
i M̄us dh I Ekkouk dbz xpk c<+ tkh gS D; kfd Nk= yxhkx 7 ?k. Vs rd bl h okrkoj.k e  
i frfnu Ø; rhr djrk gA

I pko

i Lrr 'kks/k v/; u eek/; fed Lrj ds fo | kfFkz ka ds fo | ky; h i fjošk dk mudh v/; u  
dh vknrk i oxkRed i fj i Dork , oñ ufrd eY; ka ij i t̄kko dk v/; u dj fu"d"kl i klr fd; s tk  
pds g i klr fu"d"kk ds vkkj ij 'kks/k jkUr fuEufyf[kr i pko i Lrr fd; s tk jgs g ftuds  
voyEcu e Nk=ka e v/; u dh vknrk dks vf/kd i t̄kkoh fd; k tk I drk gA I oxkRed  
i fj i Dork e fu[kkj yk; k tk I drk gS , oñ ufrd eY; ka e i pkkj dh I Ekkouk vf/kd dh tk  
I drh gA

%a% fo | kfFkz ka ds fy; s I pko

1- fo | ky; e vk; kfr gksus okyh I kfgfr; d] I kñlfrd , oñ ikB; I gxkeh fØ; kvks e Hkkx  
yus l s Ø; fDrRo dk I okxh.k fodkl gkrk gA vr% i R; d Nk= , oñ Nk=k dks bu

fØ; kdyki eä Hkkx yuuk pkfg, A

- 2- i R; d Nk= , oa Nk=k dks f' k{k. k l Ecu/kh , oa fo | ky; hu l Ecu/kh l eL; kvka l s vflkkkkodka , oa i k; ki dk dks l e; & l e; ij voxr djuk pkfg, rkfd mudk l e; ij l ek/kku fd; k tk l dA
- 3- Nk=k , oa Nk=kvka dks fo | ky; ij os k l gkkjus eä l gHkkfxrk djuh pkfg, A vi us ekrk&firk rFkk l j{kdk dks dk; k eä l g; kx djrs gq mlgä vi uh 'k{k{kd mi yfc/k dks mlgur djus ds fy, l nbo i z kl jr jguk pkfg, A bl dks fy, mlgä vi uh vkkFkld fLFkfr] l kekftd ifLFkfr rFkk vu; 'k{k{kd rF; k l s fopfyr gq fcuk vi uk dk; l djuk pkfg, A
- 4- fo | ky; dh vkkFkld fLFkfr detkj gkus ij Nk=k , oa Nk=kvka dks fo | ky; ds i trdky; dk Hkjij vuqz kx djuk pkfg, rFkk l jdkj }jkj pyk; s x; s vusd 'k{k{kd mlu; u dks dk; Øeka eä l gHkkfxrk djds vi uh 'k{k{kd mi yfc/k dks vPNk cukus dk i z kl djuk pkfg, A
- 5- Nk=k , oa Nk=kvka eä LokoyEcu dk Hkkko tkxr gkuk pkfg, vkj mlgä vPNs l ektki ; kxh dks l djus ds fy, rRij jguk pkfg, A bl l s tgkj , d vkj mueä rRijrkj vkkRefo'okl c<kkj ogha nñ jh vkj os ghukkkouk dks f' kdkj gkus l s cpkA
- 6- Nk=k , oa Nk=kvka dks ; g l pko fn; k tkrk gq fd os dks l ds vfrfjDr nñud thou eä gkus okyh ?kVukvka dks i fr tkx: d jgä vkj Hkkjr eä i pfyr ykdrkf=d l Fkkvka dks i fr vi us Kku dks Lrj dks c<k; A ; gh ugha mlgä jk"V Lrj ij fØ; k'khy jktufrd nyk muds puko ?kk{k. kk i =k ulfr; k muds usfrdrk dk Lrj] dFkuh vkj djuh eä vUej

vkfn dks nf"Vxr j [krs gq vi user 0; ogkj dks fu/kkj r djuk pkfg, A

i b½ i z/kukpk; k½ ds fy; s l pko

i z/kukpk; l dks l klrkfd : i l s Nk=k½ ds ekrk&fi rk rFkk vflkkodks dks fo | ky; es  
cyuk pkfg, vk½ ogkj mues 'k{k{kd] l kekftd rFkk vU; egRoi wkl eW; k½ dh LFkki uk ds i z kl  
fd, tkus pkfg, A i z/kukpk; l }jkj l lrkg es ,d fnu fo | ky; ds l Hkh Nk=k½ dks fd l h fo"k;  
fo'k½ i j Hkk"k.k vkfn nsus ds fy, i fjr djuk pkfg, A bl es mues vkRe&vutkklu] l kekftd  
vk½ jk"Vt; l eL; kvk½ ds i fr l gt i o.krk rFkk vkRefo'okl dk fodkl gkxkA

i kB½ l gxkeh fØ; kvk½ ds }jkj tgkj Nk=k½ ,oa Nk=kvka es vud os fDrd eW; k½ dk  
fodkl gkrk g½ ogha fofo/k 'k{k{kd] l kekftd] jktufrd rFkk /kfebd vkfn eW; k½ dk l tu Hkh  
gkrk g½ i kB½ l gxkeh fØ; kvk½ ds }jkj Nk=k½ ,oa Nk=kvka es vud l kenkf; d eW; fodfl r  
gkrs g½ ft l l s u døy muds 0; fDrRo dk fodkl gkrk g½ vfi rø muds fo | ky; i fjo'k es Hkh  
okN r rFkk l kfkd ifjorlu gkrk g½ vr% [kydn] ur; ] i opu] ukVdk½ dk epu] l kekU; Kku  
ijh{k{k] Vj vkfn i j tkj fn; k tkuk pkfg, A rkfd Nk=k½ ,oa Nk=kvka dk l okxh.k fodkl gks l ds  
vk½ vi us fo"k; k½ ds vfrfjDr mu fo"k; k½ ds i fr Hkh : >ku mRi lu g½ tks muds fy, mi ; kxh  
gkrs g½

i z/kukpk; k½ dks pkfg, fd os fo | ky; es ,d l pko tr i ftrdky; fodfl r dja bl ds  
fy, Nk=k½ ,oa Nk=kvka dks v/; ; u ds i fr tkx#d cukus dk i z kl fd; k tkuk pkfg, A vkt

Lukrd Lrj ij i<sup>tr</sup>dky; k dh fLFkfr bl i<sup>z</sup>dkj dh g<sup>s</sup>fd dN vYekfj; k e i<sup>tr</sup>d<sup>j</sup> [k nh xbz gA Nk=k dks mu i<sup>tr</sup>dk dks i<sup><</sup>us dk vol j gh ugha fn; k tkrkA 'kk; n gh dkbZ fo | ky; , \$ k gk tgk n<sup>f</sup>ud l ekpkj i=] l klrkfgd if=dk; l ekfl d if=dk; l vkn Nk=k , o Nk=kvka dks i<sup><</sup>us ds fy, nh tkrh gA

v/; ki dks ds fy; s l pko

f'k{kld og gkrk g<sup>s</sup> tks vUr%Ø; kvka ds ek/; e l s u d<sup>j</sup>oy Kku i<sup>n</sup>ku djrk g<sup>s</sup> vfi r<sup>j</sup> vi us Nk=k dk l okxh.k fodkl djrk gA vUr%Ø; k; l cgvrk; keh gkrh gA dN vUr%Ø; k; l Nk= ds 0; fDrRo dk l okxh.k fodkl djrh g<sup>s</sup> v<sup>k</sup> ml s l ekt dk l ukxfjd cukrh gA yfd u dN vUr%Ø; k; l Nk= ds 0; fDrRo dks bl i<sup>z</sup>dkj l s fufer djrh g<sup>s</sup> fd og l ekt ds vuy u gkdj foi Fkxkeh gks tkrk gA vr% ; gk v/; ki d dk nkjk dr; curk gA , d v<sup>k</sup> ml s bu dRl r vUr%Ø; k; l i j fu; l dk djuk gkrk g<sup>s</sup> ogha n<sup>l</sup> jh v<sup>k</sup> Nk= dks og mi ; kxh vUr%Ø; kvka ds l Ei d<sup>j</sup> e<sup>j</sup> ykrk gA vr% Nk= ds fy, f'k{kld vU; vftkj.ks dh vi<sup>l</sup>kk vf/kd egRoi w<sup>k</sup> gkrk gA f'k{kld dk dk; l Nk=k , o Nk=kvka e<sup>j</sup> d<sup>j</sup>oy Kku gLrkUrfjr djuk gh ugha g<sup>s</sup> vfi r<sup>j</sup> vi us l Ei w<sup>k</sup> 0; fDrRo dks gLrkUrfjr djuk gkrk gA vr% bl rF; dks nf"Vxr j[krs gq f'k{kld dks fuEufyf[kr l pko fn; s tkrs g<sup>s</sup> %

1- v/; ki d dk 0; fDrRo xfjeke; gkuk pkfg, A ft l ds xqk] 'khy] food ds l Ee[k gj elrd ur gks l dA ml dk 0; fDrRo , o vkpj.k ml nhid dh Hkkfr g<sup>s</sup> tks Lo; a tydj n<sup>l</sup> jk dks i<sup>z</sup>dk'k nrk gA vLrj l o<sup>l</sup> Eke f'k{kld dks 0; ol kf; d ekufi drk l s efDr i kuk vko'; d gA

- 2- v/; ki d dks Nk=k, oa Nk=kvks ds I e{k I n{ vkn'kz i Lrj djuk pkfg, A muds 0; fDrRo e vu{ dfe; k gks I drh g fdUrq mu dfe; k dks Nk=k e vUrjhN r ugha gksus nu k pkfg, A
- 3- v/; ki d dk nkf; Ro d{oy Kku dk i dk'k QSyuk gh ugh vfi r{jk"V ds fy, vkn'kz ukxfjd r{ kj djuk Hkh gA bl nf"V I s Hkh f'k{kds jk"V fuelk dgk tkrk gA
- 4- v/; ki d dks d{oy fo"k; dk Kku gh ugha nu k pkfg, vfi r{jk"V; ] vUrjk"V; rFkk I ekt ds vUnj gksus okyh ?kVukvk ds ckjs e Hkh Nk=k ds I kekU; Kku dk Lrj mBkus dk i z kl djuk pkfg, A D; kfd , \$ k u djus ij Nk= I ekt I s fojr gks tkrs g{ v{k mudk vo/kku d{oy fo"k; oLrjrd gh d{unr jgrk gA
- 5- v/; ki dks o{ fDrd] I kekfd] jktufrd] I k{Nfrd] v{k; kfRed v{k; I ksn; kRed v{kfn eV; k dh f'k{k 0; kogkfjd : i I s nuh pkfg, A , d v/; ki d I s ; g vi {kk dh tkrh g{fd og eukfoKku dk Kkrk gA

## भाष्य संदर्भ

- वेबस्टर शब्द कोष
- I kekfd foKknों का शब्द कोष, 1950
- i h0oh0 ; x] I kekfd vu{ U/kku] i 01 0 44
- i nbr] i 01 0 75
- th0,0 y{Mox] I k{ky fjl p] i 01 0 09
- ऑक्सफोर्ड शब्द कोष

7. , Q0, u0 djfyxj] Qkm. M"KUJ vND chgojy fj l p] i0l 0 382
8. Mouley, G.J., 1963. The Science of Educational Research, p. 231.
9. Best, J.W. Research in Education, p. 102.
10. भारद्वाज, कृष, सासनी गेट, अलीगढ़ (उम्र 9 वर्ष)
11. Lundburg, G.A. op.cit. p. 183.
12. Best, J.W. Research in Education, p. 111.
13. Anderson, G.J., 1968. Effects of Classroom Social Climate on Individual Learning, Dissertation, Hardward University.
14. Ibid., p. 59.
15. Mishra, K.S., 1978. Anti Creativity Climate Creativity, News Letter, 79, 7-8, (2,1), 41, 43.
16. Morgana, C.T., 1957. How to Study, Mc-Graw Hill, New York.
17. Seoul, L.J., 1951. Emotional Maturity, The Development and Dynamics of Personality, London, J.B. Lippincott.
18. Bhargava, M., 2007. Exceptional Children (Hindi), Agra, H.P. Bhargava Book House.
19. Singh, A.K., 1997. Tests, Measurement and Research Methods in Behavioural Sciences, Bharti Bhavan, Patna.
20. Freud, S., 1933. Introductory Lectures to Psychoanalysis, New York, Norton.

21. Pearson, Karl, 1896. The moral Basis of Socialism, University Press of the Pacific, London.
22. Bhargava, M., 2010. Modern Psychological Testing and Measurement (Hindi).
23. Guilford, J.P., 1954. Psychometric Methods, New York, McGraw Hill Book Co.

